



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 303]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 3, 2016/माघ 14, 1937

No. 303]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 3, 2016/MAGHA 14, 1937

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 2016

का.आ. 350(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 393 (अ), तारीख 6 फरवरी, 2015, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा गुजरात राज्य के भावनगर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8ई के 34.100 कि.मी. से 65.670 कि.मी. (भावनगर सेक्शन का भाग) तक के भूखण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 3 मार्च, 2015 को "सौराष्ट्र समाचार" और "दि टाइम्स ऑफ इण्डिया" दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए हैं;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

| अनुसूची | | | | | | | | | |
|---|-------------|---------------|---------------|--------------------------|------------------|----------------|-----------------|----------------------------|----------------------------------|
| गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8ई के 34.100 कि.मी. से 65.670 कि.मी. तक (भावनगर सेक्शन का हिस्सा) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण। | | | | | | | | | |
| क्र.सं. | जिला का नाम | तालुका का नाम | ग्राम का नाम | सर्वे सं. | | भूमि की प्रकार | भूमि की प्रकृति | भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टर) | हितबद्ध व्यक्ति का नाम |
| | | | | 3क में प्रकाशन के अनुसार | जेएसएस के अनुसार | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | भावनगर | (1) तलाजा | (1) पादरी (भ) | 121/P1 | 121/P1 | निजी | खेती | 0.0258 | खोडाभाई लाखाभाई भम्मर |
| | | | | 120/1 P1 | 120/1 P1 | निजी | खेती | 0.0039 | पंचुभाई रामभाई भुराभाई रामभाई |
| | | | | 114P3 | 114P3 | निजी | खेती | 0.0224 | अतुभाई देहाभाई |
| | | | | | | कूल योग | | 0.0521 | |

[फा. सं. भारास्रा/11011/गुजरात/राजकोट/एलए]

वी कृष्णास्वामी, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 3rd February, 2016

S.O. 350(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number **S.O. 393(E)**, dated the **06th February 2015**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) and issued under Sub-section (1) of Section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No.8E on the stretch of land from km 34.100 to km 65.670 (Part of Bhavnagar Section) in the District Bhavnagar, in the State of Gujarat.

And whereas the substance of the said notification has been published in “**Saurashtra Samchar**” and “**Times of India**” both dated **03.03.2015** under sub-section (3) of Section 3A of the said Act;

And whereas no objection has been received from any person, by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of Section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose.

And further, in pursuance of sub-section (2) of Section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

| SCHEDULE | | | | | | | | | |
|---|----------------------|--------------------|---------------------|-------------------|------------|--------------|----------------|---------------------|--|
| Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the stretch of land from km. 34.100 to km. 65.670 (Part of Bhavnagar section) of National Highway No. 8E in the State of Gujarat. | | | | | | | | | |
| Serial number | Name of the district | Name of the taluka | Name of the Village | Survey Number | | Type of land | Nature of land | Area (in Hectares.) | Name of the land owner / Interested person |
| | | | | As notified in 3A | As per JMS | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Bhavnagar | (1)Talaja | (1) Padri (Bh) | 121/P1 | 121/P1 | Private | Agricultural | 0.0258 | Khodabhai Lakhabhai Bhammar |
| | | | | 120/1 P1 | 120/1 P1 | Private | Agricultural | 0.0039 | Panchubhai Rambhai Bhurabhai Rambhai |
| | | | | 114P3 | 114P3 | Private | Agricultural | 0.0224 | Atubhai Dehabhai |
| Total | | | | | | | 0.0521 | | |

[F. No. NHAI/11011/Gujarat/Rajkot/LA]

V. KRISHNASWAMI, Director